

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक:- 3458 / FP/UK/HYD/22889/2016 दिनांक: देहरादून 20 जून, 2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:- जनपद-उत्तरकाशी के अन्तर्गत सुपिन नदी पर प्रस्तावित 44 मेगावाट क्षमता की जखोल-सांकरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 24.317 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु एसजेवीएन लि० को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UK/HYD/22889/2016)

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS पत्र संख्या- 8बी/यूसीपी/01/146/2018/एफ०सी०/1950 दिनांक 17-12-2018

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित ई०डी०एस० दिनांक 17-12-2018 के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निदेशक/वन संरक्षक, राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून के माध्यम से सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसकी बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	The authority letter uploaded is for Sh. J.K. Mahajan at para A-3 (xvii) online part-1 while the applicant details filled are for sh. Gambhir Singh Pundir at A-3.	The authority letter shri. J.K. Mahajan has been uploaded in Part-I, Para-A-3(XVII).
2	At para B 2.3 online part-1 village wise breakup uploaded for area 16.804 Ha only while the detail to Notional land as per land schedule uploaded as additional document in part-1 of 5.2630 Ha and RF area 2.25 ha is not given at para B 2.3.	At para B 2.3 online part-I village wise breakup including Notional land i.e. 22.067 ha has been revised and RF area 2.25 ha has been also mentioned at para B 2.3 part-I
3	In para B 2.4 component wise breakup provided for 36 components in forest and non forest area while only 8 components are shown in the digital map uploaded online.	As desired at para B 2.4 Co-ordinate has been provided for the project component and above has been mentioned in the digital map according to project component duly authenticated by DFO/Dy. Director (Wild Life)
4	A single KML file required to be uploaded for the whole project showing all component as per para B 2.4 online part-I instead of patch wise.	A single KML file has been uploaded in part-I, para B 2.4 mentioning all component has been uploaded.
5	Justification for locating the project in the forest land required to be authenticated by DFO.	Justification for locating the project in the forest land has been signed by DFO and uploaded in Part-I, para D (i).
6	The density given for GovindPushuVihar Division is 0.4 appears to be wrong in	प्रभागीय वनाधिकारी, टौंस वन प्रभाग, पुरोला के पत्रांक 1420/12-1 दिनांक 03-01-2019 के

	view of felling involved i.e. 69 trees/ ha.	द्वारा सूचित किया गया है कि गोविन्द वन्य जीव विहार से परियोजना के निर्माण में 22.067 है0 भूमि प्रभावित हो रही है। उक्त भूमि में 69 वृक्षों को पातन किया जाना है, जिनका घनत्व 0.1 होगा।
7	The NPV calculated for dense forest category for area falls in the GovindPushuVihar Division.	प्रभागीय वनाधिकारी, टौंस वन प्रभाग, पुरोला के पत्रांक 1420/12-1 दिनांक 03-01-2019 के द्वारा सूचित किया गया है कि गोविन्दवन्य जीव विहार से परियोजना के निर्माण हेतु 22.067 है0 वन भूमि प्रभावित हो रही है, जिसकी देयता एन0पी0वी0 की सब से न्यूनतम 6.57 लाख प्रति है0 की दर से मु0-1,44,98,019.00 बनती है।
8	There are no tree enumeration provided for Tons Division while the density is shown as 0.4 and the NPV is calculated for dense forest.	प्रभागीय वनाधिकारी, टौंस वन प्रभाग, पुरोला के पत्रांक 1420/12-1 दिनांक 03-01-2019 के द्वारा सूचित किया गया है कि टौंस वन प्रभाग, पुरोला से खनन हेतु 2.25 है0 वन भूमि प्रभावित होगी, परन्तु कोई वृक्ष प्रभावित न होने के कारण इसका घनत्व शून्य है। जिसकी देयता एन0पी0वी0 की सबसे न्यूनतम 6.57 लाख प्रति है0 की दर से मु0-14,78,250.00 होगी।
9	The column after para 30 are not visible online part-II	प्रभागीय वनाधिकारी, टौंस वन प्रभाग, पुरोला के पत्रांक 1420/12-1 दिनांक 03-01-2019 के द्वारा सूचित किया गया है कि भाग दो के पैरा-13 में दर्ज बिन्दुओं को पुनः ठीक कर दिया गया है।
10	In the implementation agreement the capacity is said to be 33 MW (3x11) while the proposal is for 44 MW	According to user agency initially the implementation agreement has been signed between SJVN and Govt. of Uttarakhand for the capacity of 33 MW. During survey and investigation, the project capacity redesigned and the capacity of project has been enhanced to 44 MW. The same has been submitted to state Govt. of Uttarakhand for approval of TEC (44 MW). Approval/TEC for 44 MW is in advance stage and likely to be issued very shortly by state Govt. of Uttarakhand. Accordingly, revised implementation agreement (from 33 MW to 44 MW) shall not be required.
11	Administrative approval and Techno-economic clearance of the state of Uttarakhand is neither found uploaded in online part-I & II nor provided in hard copy of the proposal.	According to user agency an undertaking in this regard has been provided by undersigned as the approval/ TEC for 44 MW is in advance stage and likely to be issued very shortly by state Govt. of Uttarakhand. Proposal may please be considered for further action. The same will be submitted after getting from state Govt. of Uttarakhand.

12	Most of the documents in the proposal submitted are in photo copy.	According to user agency the documents like Part-I to V, compensatory afforestation plan, NOC under Forest Right Act from village level committee, Block level committee and District level committee, Certificate of utilization for compensatory afforestation, estimate of NPV amount & bill for NPV in original along with proposal are enclosed, however other document shall be attested if required.
13	Muck disposal plan submitted by the user agency is not verified by DFO.	Muck disposal plan has been signed/ verified by DFO is attached.

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(ए०के० गुप्ता)
वन संरक्षक

dfc